

जुलाई 2005 व आगे के भुगतानों के लिए / For payments from July 2005 onwards

\* महत्वपूर्ण : कृपया चालान भरने से पहले टिप्पणी पीछे देखें ।  
Important: Please see notes overleaf before filling up the challan.

स्रोत पर/संग्रहण कर कटौती चालान /  
T.D.S./TCS TAX CHALLAN

एकल प्रति (क्षे.ले.अधिकारी के पास भेजने के लिए)  
Single Copy (to be sent to the ZAO)

चालान सं / आई  
टी एन एस  
CHALLAN NO. /  
ITNS  
281

उपयुक्त कर (एक पर निशान लगावें) / Tax Applicable (Tick One) \*  
स्रोत पर काटा गया / संग्रहित कर / TAX DEDUCTED / COLLECTED AT SOURCE FROM  
(0020) कम्पनी कटौतीदाता  (0021) गैर-कम्पनी कटौतीदाता   
COMPANY DEDUCTEES NON-COMPANY DEDUCTEES

निर्धारण वर्ष  
Assessment  
Year

-

कर कटौती लेखा संख्या (टैन) / Tax Deduction Account No. (T.A.N.)

पूरा नाम / Full Name

पूरा पता, नगर और राज्य सहित / Complete Address with City & State

फोन न./Tel. No.

पिन/Pin

भुगतान का निर्देशन / Type of Payment

कोड / Code\*

(एक पर निशान लगावें) / Tick One

कृपया पीछे देखें/(Please. see overleaf)

करदाता द्वारा देय टी डी एस/टी सी एस / TDS/TCS Payable by Taxpayer (200)

टी डी एस/टी सी एस - नियमित निर्धारण (आयकर विभाग द्वारा उत्पन्न) /

TDS/TCS Regular Assessment (Raised by I.T. Deptt.) (400)

भुगतान का विवरण / DETAILS OF PAYMENTS

राशि (केवल रू. में) / Amount (in Rs. Only)

आयकर / Income Tax

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

अधिभार / Surcharge

शिक्षा उपकर / Education Cess

व्याज / Interest

शास्ति / Penalty

जोड़ / Total

जोड़ (शब्दों में) / Total (in words)

करोड़ / CRORES	लाख / LACS	हजार / THOUSANDS	सैकड़ / HUNDREDS	दहाई / TENS	इकाई / UNITS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

नकद / खाते से डेबीट / चेक सं.

Paid in Cash/ Debit to A/c /Cheque No.  दिनांक

अदाकर्ता बैंक / Drawn on

(बैंक एवं शाखा का नाम) / (Name of the Bank and Branch)

द्वारा जमा किया ।

दिनांक / Date :

जमा करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर  
Signature of person making payment  
यहां से काटें / Tear Here

रू./Rs.

प्राप्तकर्ता बैंक में प्रयोग के लिये  
FOR USE IN RECEIVING BANK

खाते से डेबीट / चेक के क्रेडिट की तारीख  
Debit to A/c / Cheque credited on

ता. / DD मा. / MM वर्ष / YY

बैंक की मोहर के लिए स्थान  
SPACE FOR BANK SEAL

करदाता का प्रतिपण / Taxpayers Counterfoil (To be filled up by tax payer)

कर कटौती लेखा सं. (टैन) / TAN

Received from

(नाम) / (Name)

से नकद/खाते से डेबीट / चेक सं.

Cash/ Debit to A/c /Cheque No.  रू.

For Rs.

रू. (शब्दों में)

Rs. (in words)

अदाकर्ता बैंक / drawn on

(बैंक एवं शाखा का नाम) / (Name of the Bank and Branch)

द्वारा से स्रोत पर कर/कर संग्रहण (टीसीएस) कटौती (टी.डी.एस.) कम्पनी/Company / गैर-कम्पनी/Non-Company कटौतीदाता/  
Deductees

on account of Tax Deducted at Source (TDS)/Tax Collected at source (TCS) from ..... (Fill up Code)

(जो लागू ना हो उसे काट दें) / (Strike out whichever is not applicable)

के रूप में निर्धारण वर्ष / for the Assessment Year

-

के लिए प्राप्त हुआ

रू./Rs.

बैंक की मोहर के लिए स्थान  
SPACE FOR BANK SEAL

**\* टिप्पणी/NOTES**

- कृपया नोट करें कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 ख ख के अनुसार झूठा कर कटौती लेखा संख्या (टैन) दर्शाने पर 10000/- रूपये की शास्ति की व्यवस्था है।  
**Please note that quoting false TAN may attract a penalty of Rs. 10,000/- as per section 272BB of I.T. Act, 1961.**
- भुगतान के प्रत्येक प्रकार (निदर्शन) के लिए अलग चालान का प्रयोग करें।  
**Use a Separate Challan for each Nature (Type) of Payment. The relevant Codes are:**  
सुसंगत कोड निम्नलिखित है:

धारा/Section	भुगतान का प्रकार / Nature of Payment	कोड/Code
192	संघ सरकार के कर्मचारी को छोड़कर सरकारी कर्मचारियों को संदाय / Payment to Govt. Employees other than Union Government Employees	9 2 A
192	सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर कर्मचारियों को संदाय / Payment of Employees other than Govt. Employees	9 2 B
193	प्रतिभूतियों पर ब्याज / Interest on securities	1 9 3
194	लाभांश / Dividend	1 9 4
194A	प्रतिभूतियों से भिन्न ब्याज / Interest other than interest on securities	9 4 A
194B	लाटरी व वर्ग पहेली में हुई जीत / Winnings from lotteries and crossword puzzles	9 4 B
194BB	घुड़दौड़ में हुई जीत / Winnings from horse race	4 B B
194C	ठेकेदारों व उपठेकेदारों का भुगतान / Payment of contractors and sub-contractors	9 4 C
194D	बीमा कमीशन / Insurance Commission	9 4 D
194E	अनिवासी खेल संगमों या संस्थाओं को संदाय / Payments to non-resident Sportsmen/Sport Associations	9 4 E
194EE	राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत निक्षेपों से संबंधित संदाय / Payments in respect of Deposits under National Savings Schemes	4 E E
194F	म्यूच्युअल फंड या यू.टी.आई. द्वारा यूनिटों के पुनः क्रय के कारण / Payments on account of Re-purchase of Units by Mutual Funds or UTI	9 4 F
194G	लाटरी की सेल पर कमीशन, इनाम इत्यादि / Commision, prize etc. on sale of Lottery tickets	9 4 G
194H	कमीशन या ब्रोकरेज / Commission or Brokerage	9 4 H
194I	किराया / Rent	9 4 I
194J	वृत्तिक अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस / Fees For Professional Or Technical Services	9 4 J
194K	विनिर्दिष्ट म्यूच्युअल फंड यूनिटों या यू.टी.आई. की यूनिटों के संबंध में निवासी निर्धारित को संदेय आय / Income payable to a Resident Assessee in respect of Units of a specified Mutual Fund or of the Units of the UTI	9 4 K
194LA	कतिपय अचल सम्पत्ति के अर्जन पर प्रतिकर का संदाय / Payment of Compensation on Acquisition of Certain Immovable Property	9 4 L
195	अनिवासी को संदाय अन्य रकम / Other sums payable to a non-resident	1 9 5
196A	अनिवासी की यूनिटों के संबंध में आय / Income in respect of units of Non-Residents	9 6 A
196B	अपतट निधि के यूनिटों के संबंध में किया गया संदाय / Payments in respect of Units to an Offshore Fund	9 6 B
196C	किसी अनिवासी का संदेय विदेशी करेन्सी, बांड्स या भारतीय कम्पनी के शेयरों से आय / Income from foreign Currency Bonds or shares of Indian Company payable to Non-Resident	9 6 C
196D	प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत निवेशकों को आय / Income of foreign institutional investors from securities	9 6 D
206C	मानव उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Alcoholic Liquor for Human Consumption	6 C A
206C	वन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त काष्ठ से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Timber obtained under Forest lease	6 C B
206C	वन पट्टे के अलावा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त किए गए काष्ठ से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Timber obtained by any Mode other than a Forest Lease	6 C C
206C	किसी अन्य वन उत्पाद (जो तेंदू पत्ता नहीं है) से स्रोत पर संग्रहण / Collection at source from any other Forest Produce (not being Tendu Leaves)	6 C D
206C	स्कैप से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from Scrap	6 C E
206C	पार्किंग लाटस से संबंधित ठेकों अथवा लाईसेंस अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from contractors or licensee or lease relating to Parking lots	6 C F
206C	टोल प्लाजा से संबंधित ठेकों अथवा लाईसेंस अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from contractors or licensee or lease relating to toll plaza	6 C G
206C	खान अथवा खनिज से संबंधित ठेकों अथवा लाईसेंस अथवा पट्टे से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from contractors or licensee or lease relating to mine or quarry	6 C H
206C	तेंदू पत्तों से स्रोत पर संग्रहण / Collection at Source from tendu leaves	6 C I

कृपया चालान के ऊपर सुसंगत बाक्स में सही का निशान लगायें। कम्पनी कटौतीदाता तथा गैर-कम्पनी कटौतीदाता से स्रोत पर काटे गए कर को जमा करने के लिये अलग चालान का प्रयोग किया जाना है।

**PLEASE TICK THE RELEVANT BOX AT THE TOP OF THE CHALLAN. SEPARATE CHALLANS SHOULD BE USED FOR DEPOSITING TAX DEDUCTED AT SOURCE FROM COMPANY DEDUCTEES AND FROM NON-COMPANY DEDUCTEES.**

कृपया जांच करें कि बैंक पावती में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध है :-

- बैंक शाखा का 7 अंक की बी एस आर कोड
- चालान जमा करने की तारीख (दिन, माह, वर्ष)
- चालान क्रम संख्या

आपको इसका आय की विवरणी में उल्लेख करना होगा।

**KINDLY ENSURE THAT THE BANK'S ACKNOWLEDGEMENT CONTAINS THE FOLLOWING:-**

- 7 DIGIT BSR CODE OF THE BANK BRANCH
- DATE OF DEPOSIT OF CHALLAN (DD MM YY)
- CHALLAN SERIAL NUMBER

**THESE WILL HAVE TO BE QUOTED IN YOUR RETURN OF INCOME.**